



प्रोतसाहन टीम NGO
द्वारा रचित
सड़क सुरक्षा महाग्रंथ

आईये इसे पढ़ें समझें और अपनाएं !
और अपनी सड़क यात्रा को सुखमय बनायें !!





प्रोत्साहन टीम NGO
द्वारा रचित
सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




ट्रैफिक जाम से है नुकसान, सबसे ज्यादा आपका !
देश की प्रगति धीमी होती, और डीजल फुंकता आपका !!


बाद में आकर जल्दी जाना, काम है शैतान का !
रोगी वाहन का साइरन बजना भी, हो जाता बेकाम का !!

मूड खराब हो, दिन खराब हो, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है !
महाग्रंथ के नियमित पाठ से, स्वास्थ्य लाभ भी होता है !!

www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO
द्वारा रचित
सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




जब तक हम सब
एक जैसे नियमों का पालन नहीं करेंगे
जाम से छुटकारा नहीं मिल सकेगा !

आईये एक जैसे नियमों को
पढ़ें, जानें, समझें और अपनाएं !
और अपनी सड़क यात्रा को सुखमय बनायें !!

www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO
द्वारा रचित
सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




सड़क पर चलते हुए हर इंसान को
केवल सड़क का ही धर्म निभाना चाहिए !

सड़क पर चलता हुआ हर इंसान
बिल्कुल आपके समान है,
अतः आप सभी को प्रेम एवं सम्मान दें !

www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO
द्वारा रचित
सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




सड़क धर्म का पहला नियम है कि

हम सभी सड़क लेन के नियमों का
महत्व समझें और पालन करें !

www.prothsahantem.org



प्रोत्साहन टीम NGO
द्वारा रचित
सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




सड़क लेन के नियम


अपनी लेन में रहें और बार बार लेन ना बदलें.

लेन में रहने का मतलब
अपने से तीसरी गाड़ी ना दिखाई दें !

www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO
द्वारा रचित
सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




हम अपने घर से दस मिनट जल्दी निकलें.
देर से निकलने पर हमें मजबूरन जल्दबाज़ी
करनी पड़ती है क्योंकि हम सभी जिम्मेदार
लोग अपनी मंज़िल पर सही वक़्त पर पहुंचना
चाहते हैं !

विश्वास करें आप भगवान कि दिव्य संतान हैं,
कदापि मज़बूरी को अपने भाग्य पर हावी ना
बनने दें !

www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO
द्वारा रचित
सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




रेड लाइट फ्री गोल चक्कर चौराहे के नियम :

अपनी लेन को ठीक से पहचानो,
पहले आओ पहले जाओ !

www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO
द्वारा रचित
सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




रेड लाइट फ्री गोल चक्कर चौराहे के नियम :

मुड़ने से पहले ही अपनी गाड़ी के
मुड़ने की दिशा का
इंडिकेटर जरूर दो !

www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO
द्वारा रचित
सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




रेड लाइट फ्री गोल चक्कर चौराहे के नियम :

सीधे हाथ की तरफ से
आने वाले वाहन को
निकल जाने का रास्ता दो,
गाड़ी को धीमे चलाओ !!

www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO
द्वारा रचित
सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




रेड लाइट फ्री गोल चक्कर चौराहे के नियम :

तुरंत मुड़ना हो तो लेफ्ट में रहो,
अगले मोड़ वाले बीच में !

www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO
द्वारा रचित
सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




रेड लाइट फ्री गोल चक्कर चौराहे के नियम :

तीसरे, चौथे और U-टर्न वाले,
रहें सबसे अंदर कि लेन में !!

www.prothsahantem.org



प्रोत्साहन टीम NGO द्वारा रचित सड़क सुरक्षा महाग्रंथ



ट्रैफिक जाम एक भयंकर समस्या, समाधान हमारे और आपके पास !

रेड लाइट जोन में घुसने से पहले तय करें कि आपको किस लेन में रहना है

रेड लाइट के चारों तरफ २०० मीटर तक नो लेन चेंजिंग जोन है, इसमें प्रवेश करने से पहले निर्धारित करें कि आपको कौन सी लेन से जनन चाहिए

रेड लाइट पर गाड़ी को सही जगह कड़ी करें, आड़ी तिरछी ना खड़ी करें


रेड लाइट जोन में प्रवेश करने के बाद ना सोचें कि अब कहाँ मुड़ना है - यह आपसे आपेक्षित नहीं है

सभी वाहन चालकों को अपनी दायीं तरफ से रोगी वाहन को निकल जाने का रास्ता देना चाहिए ताकि रोगी वाहन को ज्यादा दायें या बाएं कि लेन में ना जाना पड़े तथा जल्द से जल्द रोगी को अस्पताल पहुंचा सके, इंसान कि जान कि कीमत समजें, उसे यूँ ट्रैफिक जाम में फंसा कर और गंभीर ना होने दें


छोटे एवं तंग मोड़ के आने से पहले ही लेन संख्या काम करें , ऐसा ना करने से समय कि बर्बादी होती है

© 2018 Proth Sahantem. All rights reserved. Proth Sahantem is a registered trademark of Proth Sahantem. All rights reserved.
Proth Sahantem is a registered trademark of Proth Sahantem. All rights reserved.
Proth Sahantem is a registered trademark of Proth Sahantem. All rights reserved.
Proth Sahantem is a registered trademark of Proth Sahantem. All rights reserved.
Proth Sahantem is a registered trademark of Proth Sahantem. All rights reserved.

www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO द्वारा रचित सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




- 6 अपनी लेन को पहचानने और बार-बार लेन ना बदलें ।
- 7 अपने दायीं ओर 1 फिट से कम कि जगह छोड़ें-ताकि ज्यादा लेन बन सकें ।
- 8 छोटे मोड़ पर पहुँचने से पहले ही लेन संख्या कम करें ।
- 9 लाल बत्ती हरी होने से पहले ही गाड़ी स्टार्ट कर लें ताकि ज्यादा गाड़ीयाँ निकल सकें ।
- 10 केवल अपनी सोच कर सबके लिए मुसीबत ना खड़ी करें, दूसरों की भी साँचें ।

www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO द्वारा रचित सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




- 11 15 मिनट घर से जल्दी चलें, ताकि रैष ड्राइविंग से बचें ।
- 12 देर से चल कर जल्दी पहुँचने की कोषिष ना करें ।
- 13 बोतल नैक प्वाइंट मतलब ट्रैफिक जाम, धक्का-मुक्की, समय, और पेट्रौल की बरबादीं ।
- 14 ट्रैफिक जाम में खडे होने से अच्छा है, कि नियमित स्पीड पर चलें ।
- 15 दायीं तरफ चल रहे धीमीं गति के वाहन दूसरों को बायीं तरफ से ओवरटेक करने को मजबूर ना करें ।

www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO द्वारा रचित सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




- 16 अनजान जगह पर होने का मतलब ये नहीं कि औरों के लिए मुसीबत बनें, बीच सड़क में खड़े होकर रास्ता ना पूछें।
- 17 सीधी लाईन में खड़े होने का मतलब प्रार्थना में खड़े स्कूल के बच्चों से सीखें।
- 18 लेन में चलने का मतलब अपने से तीसरी गाड़ी ना दिखाई दें।
- 19 आड़ी-तिरछी गाड़ीयाँ ना खड़ी करे इससे सभी का समय खराब होता है।
- 20 सड़क पर कम से कम जगह घेरें ताकि ज्यादा गाड़ीयाँ सीधी लेन में चल सकें।


www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO द्वारा रचित सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




- 21 गाड़ीयों के बीच नियमित दूरी रखें और छोटी बड़ी दुर्घटनाओं से बचें ।
- 22 जल्दबाजी के दोस्त महान —टेंशन —दुर्घटना —सबका नुकसान ।
- 23 सबसे देर से आकर —गलत लेन में आगे पहुँचने कि कोषिष ना करें ।
- 24 एक आदमी की लापरवाही की वजह से औरों का भी नुकसान हो सकता है ।
- 25 जिस तरह घर से अपनी गन्तव्य मंजिल का रूट तय करते हैं वैसे ही अपनी लेन भी निर्धारित करें, तथा बार—बार लेन ना बदलें ।




प्रोत्साहन टीम NGO द्वारा रचित सड़क सुरक्षा महाग्रंथ



- 26 जैसे आप किसी दूसरे की जेब में रखे पैसे नहीं निकालते वैसे ही रेड लाईट पर किसी दूसरी लेन के निर्धारित समय में से आपको चौराहा पार नहीं करना चाहिये।
- 27 पहले मैं !! पहले मैं !! की वजह से भी ट्रेफिक जाम होता है। पहले आप!! पहले आप!! कहकर जिंदगी सुखमय बनायें।
- 28 हर मोड़ या चौराहे पर बीचो-बीच टर्निंग जोन को खाली रखे बेवजहा बीच में घुस कर, दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों का रास्ता ना रोके।
- 29 हमेशा हर मोड़ पर मुड़ते हुए सड़क पर मुड़ती हुई काल्पनिक लेन रेखाओं का ध्यान रखे, और उस अपनी लेन पर ही वाहन को चलाएँ, किसी और की वजह से किसी भी कीमत पर अपनी लेन ना छोड़े।
- 30 अगर आपको पता है कि आगे सड़क संकरी है तो बेवजहा अपनी गाड़ियों को तेज चला कर जाम ना लगाए कम स्पीड पर गाड़ी चलाने का लुत्फ उठाये।



प्रोत्साहन टीम NGO द्वारा रचित सड़क सुरक्षा महाग्रंथ



31 जो पहले मोड़ पर आया पहले हक उस का । किसी भी मोड़ पर मुड़ने के लिए स्पीड कम रखे ।


गोल चक्कर नियम

32 गोल चक्कर को रेड लाईट फ्री करके सभी वाहन चालकोकी लेन नियम परीक्षा हो जाती है, जाम मे जो सबसे आगे-वो फेल ।


33 गोल चक्कर पर लगे जाम के लिये वाहन चालक ही जिम्मेदार होते है ।

34 गोल चक्कर पर अपने से सीधे हाथ वाले वाहन को पहले जाने दे ।

35 गोल चक्कर की सड़क की चौड़ाई के हिसाब से ही लेन बनाये ।




प्रोत्साहन टीम NGO द्वारा रचित सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




- 36 जिन्हें तुरन्त ही उलटे हाथ को मुड़ना हो केवल वो ही बाहर की तरफ बाये लेन मे चले, आगे मुड़ने वाले अन्दर क लेन या बीच वाली लेन मे चले।
- 37 पहले मैं—पहले मैं !! अक्सर मुखता, मानसिक तनाव, मुष्किल और मौत को दावत दे सकता हैं।
- 38 पहले आप—पहले आप !! अक्सर मुस्कुराहट महानता, सुख शांति और प्रगति को दावत देता हैं।

www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO द्वारा रचित सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




पहले मैं-पहले मैं !! अक्सर मुखता, मानसिक तनाव, मुष्किल और मौत को दावत दे सकता हैं।

पहले आप-पहले आप !! अक्सर मुस्कुराहट महानता, सुख षांति और प्रगति को दावत देता हैं।

www.prothsahantem.org




प्रोत्साहन टीम NGO
द्वारा रचित
सड़क सुरक्षा महाग्रंथ




पूर्ण ग्रन्थ के अध्ययन के लिए कृपया
हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें एवं
देश के प्रगति में भागिदार बने !

www.prothsahantem.org



प्रोतसाहन टीम NGO द्वारा रचित सड़क सुरक्षा महाग्रंथ



Prothsahan Team

(Together Everyone Achieve More)

(Regn. No: S/S8039/2007, Dated: 7th March 2007)

Encourage Human Towards Humankind

Regd. Address : T-301, 3rd Floor, Chetak Complex, LSC,
Pocket B & E, Dilshad Garden, Delhi - 110095. INDIA

Telefax : 91-11-22131125

Our Banker Detail

A/c Detail: 023354

Corporation Bank, Dilshad Garden,

Branch Code :: 463 ABB - Anywhwere Branch Banking


Delhi-110095, INDIA

Our PAN No : AAAAP7473K


All donations are Tax exempted u/s 80g

E-mail: info@prothsahantem.org, prothsahantem@yahoo.co.in

www.prothsahantem.org



प्रोतसाहन टीम NGO द्वारा रचित सड़क सुरक्षा महाग्रंथ



समाजसेवी एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी ईश्वर उपासक श्री आलोक वशिष्ठ जी एवं प्रोतसाहन टीम के अन्य देशभक्त सदस्य, साथियों द्वारा लिखित, भारत देश की प्रगति में सहायक होने वाला, यह दिव्य **सड़क सुरक्षा महाग्रंथ** का दूसरा सुसज्जित संस्करण, सहमति एवं हर्ष के साथ आज भारत के देशवासियों को समर्पित करते हैं तथा आशा करते हैं कि हम भारत देश के नागरिक इस वर्ष से अनुशासित जीवन जीने कि कला को अपनाएँगे एवं अपनी सड़क यात्रा को सुखमय तथा आनंदमय बनाकर अपने और भारत देश का नाम गौरवान्वित करेंगे !

